



## छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक  
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा षष्ठम् सत्र अंक-07

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 मार्च, 2020

(फाल्गुन 13, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

### **1. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मंगलवार, दिनांक 3 मार्च, 2020 को सम्पन्न कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि आज प्रश्नकाल नहीं होगा।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

### **2. वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक का उपस्थापन**

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 4 एवं 5 मार्च, 2020 की तिथियां आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नियत की।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि - आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना बुधवार, दिनांक 4 मार्च, 2020 को

मध्याह्न 12.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

### **3.जन्म दिवस की बधाई**

माननीय अध्यक्ष ने श्री यू.डी.मिंज, सदस्य को जन्म दिवस के अवसर पर अपनी ओर एवं सदन की ओर से शुभकामनाएं दी तथा स्वस्थ, सुदीर्घ एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की ।

पूर्वाह्न 11.53 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 4 मार्च,2020 (फाल्गुन 14, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा